

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 69]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 3 फरवरी 2014—माघ 14, शक 1935

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल  
भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2014

अधि. 4 क्र. एफ-1-02-2014-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद् सीधी, जिला सीधी के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र.	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 08, पं. दीनदयाल वार्ड (2) वार्ड क्र. 21, रानी दुर्गावती वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 12, मुखर्जी वार्ड (2) वार्ड क्र. 16, राजीव गांधी वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	06	(1) वार्ड क्र. 04, सुभाष वार्ड (2) वार्ड क्र. 10, स्वामी विवेकानन्द वार्ड (3) वार्ड क्र. 13, राममनोहर लोहिया वार्ड (4) वार्ड क्र. 18, इन्दिरा गांधी वार्ड (5) वार्ड क्र. 22, महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड (6) वार्ड क्र. 24, शंकराचार्य वार्ड
4	अनु.जा. के आरक्षित वार्डों में से अ.जा. (महिला) के लिये आरक्षित वार्ड.	01	(1) वार्ड क्र. 08, पं. दीनदयाल वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
5	अनु.ज.जा. के आरक्षित वार्डों में से अ.ज.जा. (महिला) के लिये आरक्षित वार्ड.	01	(1) वार्ड क्र. 16, राजीव गांधी वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) के लिये आरक्षित वार्ड.	03	(1) वार्ड क्र. 04, सुभाष वार्ड (2) वार्ड क्र. 10, स्वामी विवेकानन्द वार्ड (3) वार्ड क्र. 22, महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
7	अनारक्षित वार्डों में से (महिला) के लिए आरक्षित वार्ड.	07	(1) वार्ड क्र. 02, जवाहर वार्ड (2) वार्ड क्र. 03, तिलक वार्ड (3) वार्ड क्र. 05, संजय गांधी वार्ड (4) वार्ड क्र. 07, गांधी वार्ड (5) वार्ड क्र. 09, सरदार भगत सिंह वार्ड (6) वार्ड क्र. 14, डॉ मौलाना अब्दुल कलाम वार्ड (7) वार्ड क्र. 19, डॉ. अम्बेडकर वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**एस. एन. मिश्रा, प्रमुख सचिव.**